

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ७१] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल १५, १९६८/चैत्र २६, १८९०

No. 71] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 1968/CHAITRA 26, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION**

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 15th April 1968

G.S.R. 716.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Madhya Pradesh Foodgrains (Restriction on Border Transport) Order, 1967, namely :—

1. This Order may be called the Madhya Pradesh Foodgrains (Restriction on Border Transport) Amendment Order, 1968.

2. In the Madhya Pradesh Foodgrains (Restriction on Border Transport) Order, 1967, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted namely :—

"THE SCHEDULE

[See sub-clause (b) of clause 2]

- (1) Paddy (rice in husk)
- (2) Rice (Dehusked)

- (3) Wheat
- (4) Juar
- (5) Malze
- (6) Bajra
- (7) Kodo-Kutkl."

[No. 204(Genl)(1)/1023/68-PY.-II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt Secy